



Community Connectors

विभिन्न साँस्कृतियों से आने वाले विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के लिए समर्थन

सही प्रकार की सहायता मिलने से लोगों का जीवन बदल सकता है।

विकलाँगता-ग्रस्त बहुसाँस्कृतिक लोगों को NDIS से जोड़ना

क्या आप विकलाँगता से ग्रस्त हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते/करती हैं, जिसे National Disability Insurance Scheme (NDIS) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता से लाभ मिल सकता है?

Community Connectors कार्यक्रम आपको NDIS से जोड़ने के लिए आपके समुदाय के अंदर आपकी संस्कृति के अनुरूप समर्थन देने के लिए उपलब्ध है।



NDIS क्या है?

NDIS एक निःशुल्क सरकारी कार्यक्रम है जो विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को सेवाएँ और सहायता प्रदान करता है।



NDIS मेरी सहायता कैसे कर सकता है?

समर्थन और सेवाओं में ये बातें शामिल हो सकती हैं:

- आपकी दिन-प्रतिदिन की व्यक्तिगत गतिविधियों में सहायता
- आपको सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त करने या बनाए रखने में समर्थन देने के लिए के लिए कार्यस्थल सहायता
- आपको अपने घर का परिवेश बनाए रखने में समर्थन देने के लिए घरेलू कार्यों में सहायता
- आने-जाने में सहायता के लिए मोबिलिटी एड (गतिशीलता साधन) और/या उपकरणों की खरीदारी।



Community Connector कौन होता है?

Community Connectors (कम्युनिटी कनेक्टर्स) साँस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध और गैर-अंग्रेज़ी पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को NDIS की सुविधाएँ प्राप्त करने में समर्थन देते हैं।

वे आपके और NDIS के बीच संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करके सहायता देते हैं।

आपका Community Connector आपको इन बातों में समर्थन दे सकता है:

- NDIS के लिए आवेदन करना
- आपके स्थानीय NDIS संपर्कों के साथ आपका संपर्क स्थापित करना
- NDIS सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने और इनका प्रयोग करने के लिए आपको समर्थन देना।



अपने स्थानीय Community Connectors के साथ संपर्क करें:



दुभाषियों की सुलभता

यदि आपको इस पेज में दी गई सामग्री को समझने में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा (TIS) (131 450) को कॉल करें और उनसे आपके स्थानीय सेवा प्रदाता से संपर्क करने के लिए कहें।

National Community Connectors Program एक सहयोग है जो NDIS, Federation of Ethnic Communities' Councils और National Ethnic Disability Alliance के बीच स्थापित है। इसे National Disability Insurance Agency द्वारा निधीकृत किया जाता है।

वेबसाइट fecca.org.au या neda.org.au पर जाएँ।